

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 90]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 जनवरी 2010—पौष 28, शक 1921

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2010

फा. क्र. 17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिए जिला गुना में दिनांक 18 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिए संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

झोनल अधिकारियों की सूची

जनपद-गुना

जोन क्र. (1)	जोनल अधिकारी का नाम (2)	जनपद पंचायत का नाम (3)	जोन क्र./नाम (4)
1	श्री आर. के. मिश्रा, उप संचालक, सामाजिक न्याय, गुना	गुना	सिरसी
2	श्री शरद सक्सैना, कार्यपालन यंत्री, म. प्र. विवि. क. मध्य क्षेत्र, गुना	गुना	मारकीमहू
3	डॉ. व्ही. एस. धापानी, जिला योजना अधिकारी, गुना	गुना	उमरी
4	श्री व्ही. एन. एस. तोमर, सहा. संचालक, कृषि विभाग, गुना	गुना	खैरीखता
5	श्री यू. एस. पाण्डे, कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा.यां., गुना	गुना	म्याना

(1)	(2)	(3)	(4)
6	श्री भगवान सिंह गुर्जर, सहा. संचालक उद्यान, गुना	गुना	लहरघाट
7	श्री एच. के. पठान, सहायक परियोजना अधिकारी, डी.पी.सी., गुना	गुना	बजरंगगढ़
8	श्री एन. के. बारेलिया, कार्यपालन यंत्री, ग्रा.यां.सेवा, गुना	गुना	छीपोन
9	श्री एस. के. एस. कुशवाह, सहायक भूमि संरक्षक अधिकारी, गुना	गुना	मगराना
10	श्री के. एल. चौधरी, सहायक यंत्री, लो.नि.वि., गुना	गुना	इमझरा
11	श्री आर. बी. गोयल, परियोजना अधिकारी म.बा.वि., गुना	गुना	भदौरा
12	श्री उपेन्द्र सिंह, उपायुक्त सहकारिता, जिला गुना	गुना	धमनार
13	श्री प्रकाश दातार, सहायक यंत्री, म.प्र. मध्यक्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी, गुना.	गुना	टकनेरा
14	श्री एस. के. खरे, कार्यपालन यंत्री, म. प्र. मध्यक्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी, गुना.	गुना	हरीपुर
15	श्री पी. एल. यादव, सहायक यंत्री, लो.नि.वि., गुना	गुना	पिपरोदाखुर्द
16	श्रीमती सजन अलूना मिश्रा, जिला महिला बाल वि. अधिकारी, गुना	गुना	पगारा
17	श्री संजय श्रीवास्तव, प्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, गुना.	गुना	विनायकखेड़ी
18	श्री टी. खलको, समन्वयक, डी.पी.आई.पी., गुना	गुना	सिरसीकलां
19	श्री ओ. पी. मंगल, सहायक यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना	गुना	बरखेड़ागिर्द
20	श्री बी. के. शर्मा, जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, गुना	गुना	रिजर्व
21	डॉ. महेन्द्र धार्वे, समन्वयक, डी.पी.आई.पी., गुना	गुना	रिजर्व

जनपद-आरोन

1	श्री व्ही. के. सक्सेना, सहा. संचालक मत्स्य, गुना	आरोन	1 मुहांसा
2	श्री भरोसीराम गोड, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, राधौगढ़	आरोन	2 पनवाड़ीहाट
3	श्री एस. बी. जाटव, सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी, आरोन	आरोन	3 नेव
4	श्री आर. एस. नायक, जिला प्रबंधक, एम. पी. एग्रो, गुना	आरोन	4 शिन्नरियादांगी
5	श्री पी. सी. गोयल, जिला प्रबंधक, एम. पी. स्टेट सिविल सप्लाय, गुना	आरोन	5 रोरिया
6	डॉ. यू. के. नादिया, पशु चिकित्सा अधिकारी, गुना	आरोन	6 मूडराखुर्द
7	डॉ. एम. के. गुप्ता, प्रभारी उप संचालक, पशु चिकित्सा, गुना	आरोन	7 मूडरामाता
8	श्री डी. सी. शर्मा, उप संचालक कृषि, गुना	आरोन	8 वृदावन
9	श्री एस. के. राजौरिया, सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग, गुना	आरोन	9 सुनगथाई
10	श्री टी. एस. डाबर, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, राधौगढ़	आरोन	10 वृशमांद

(1)	(2)	(3)	(4)
11	श्री आर. बी. गुप्ता, सहा. यंत्री, मुख्य नगरपालिका, गुना	आरोन	11 झाझौन
12	श्री बी. एल. दादोरिया, कार्य. यंत्री, जल संसाधन, गुना	आरोन	12 बरखेड़ाहाट
13	श्रीमती राजकुमारी जैन, परियोजना अधिकारी एकी. बा.वि. अधिकारी, आरोन	आरोन	13 खजूरी
14	श्री सामंतदास मैथानिया, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, राधौगढ़	आरोन	14 घटावदा
15	डॉ. के. डी. शर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी, गुना	आरोन	रिजर्व
16	श्री एन. आर. वघेल, सहा. संचालक कृषि, गुना	आरोन	रिजर्व

जनपद-बमोरी

1	श्री विजय कुमार जैन, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, राधौगढ़	बमोरी	पाटन
2	श्री पी. जी. गोलवलकर, कार्यपालन यंत्री, हाउसिंग बोर्ड, गुना	बमोरी	डोंगरपुर
3	श्री एम. एल. गुप्ता, सहा. संचालक शिक्षा, गुना	बमोरी	बमोरी
4	श्री ए. डी. चतुर्वेदी, महाप्रबंधक, उद्योग, गुना	बमोरी	मुहाल कालोनी
5	श्री आर. ए. एस. कौशिक, सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग, गुना	बमोरी	परांठ
6	श्री डी. के. तिवारी, सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग, गुना	बमोरी	अमरोद
7	श्री एम. एल. कोरी, सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग, गुना	बमोरी	ख्यावदा
8	श्री पी. के. हेड़ऊ, सहायक यंत्री, म.प्र. हाउसिंग बोर्ड, गुना	बमोरी	भौरा
9	श्री बी. के. सक्सेना, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा.या.सेवा, गुना	बमोरी	फतेहगढ़
10	श्री बी. एस. मीना, जिला रोजगार अधिकारी, गुना	बमोरी	अजरोडा
11	श्री विजय गुप्ता, महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री सड़क प्राधिकरण, गुना	बमोरी	कपासी
12	श्री डी. एन. नीखरा, सहायक यंत्री, लोक स्वा. यां. वि., गुना	बमोरी	पाडोन
13	श्री ए. के. शर्मा, सहायक यंत्री, लोक स्वा. यां. वि., बमोरी	बमोरी	झागर
14	श्री टी. आर. पगारे, जिला पंजीयक, गुना	बमोरी	सूजाखेडी
15	श्री एल. पी. धनोरिया, श्रमपदाधिकारी, गुना	बमोरी	बेरखेडी
16	श्री ओ. एल. वर्मा, कार्य. अधिकारी अन्त., गुना	बमोरी	रिजर्व
17	श्री बी. एस. देसलहरा, प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. क्र. 1, गुना	बमोरी	रिजर्व

जनपद-राधौगढ़

1	डॉ. व्ही. आर. रावत, पशु चिकित्सा अधिकारी, आरोन	राधौगढ़	1 धरनावदा
2	डॉ. के. के. पाण्डे, पशु चिकित्सा अधिकारी, कुम्भराज	राधौगढ़	2 दोराना
3	डॉ. एच. के. पाठक, पशु चिकित्सक पशु मातामहामारी स. इकाई, गुना	राधौगढ़	3 ककवासा

(1)	(2)	(3)	(4)
4	श्री पी. डी. देशपाण्डे, सहा. यंत्री, लो.नि. विभाग, गुना	राघौगढ़	4 आवन
5	श्री सी. एस. निम, सहा. यंत्री, लो.नि. विभाग, राघौगढ़	राघौगढ़	5 बन्दगढा
6	श्री एस. एस. ठाकुर, सहा. आयुक्त, वाणिज्यकर विभाग, गुना	राघौगढ़	6 रामनगर
7	श्री आर. सी. झा, परियोजना अधिकारी, एकी. महिला बाल वि. अधिकारी, राघौगढ़	राघौगढ़	7 गोविन्दपुरा
8	श्री जे. बी. धगट, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत गुना	राघौगढ़	8 पीलाघाटा
9	श्री पी. एस. परमार, सहा. संचालक रेशम, गुना	राघौगढ़	9 गादेर
10	डॉ. सुरेश सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, राघौगढ़	राघौगढ़	10 बरसत
11	श्री एम. एम. नामदेव, प्राचार्य पोलीटेक्निक, राघौगढ़	राघौगढ़	11 टोडरा
12	श्री आई. यू. खान, प्रभारी जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, गुना	राघौगढ़	12 जामनेर
13	श्री टी. डी. बहुगना, सहा. वाणिज्यकर अधिकारी, गुना	राघौगढ़	13 कंजई
14	श्री एम. एल. सवीता, सहा. वाणिज्यकर अधिकारी, गुना	राघौगढ़	14 धीनाखेडी
15	श्री पी. सी. सक्सैना, सहा. वाणिज्यकर अधिकारी, गुना	राघौगढ़	15 कोलारस
16	श्री ओ. पी. कैथवास, सहा. वाणिज्यकर अधिकारी, गुना	राघौगढ़	16 मक्सूदनगढ
17	डॉ. आर. एस. सिकरवार, पशु चिकित्सा अधिकारी, गुना	राघौगढ़	17 नसीरपुर
18	श्री चन्द्रकांत वर्मा, सहा. आयुक्त सहकारी संस्थाएं, गुना	राघौगढ़	18 भगवतीपुर
19	श्री ए. के. सोनी, जिला विपणन अधिकारी, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. गुना.	राघौगढ़	19 उकावद
20	श्री के. के. नागराज, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, जिला पंचायत गुना	राघौगढ़	20 कीताखेडी
21	श्री डी. एस. आर्य, प्रबंधक उद्योग विभाग, गुना	राघौगढ़	21 दुर्गपुरा
22	गोपीलाल सहेरिया, जिला मलेरिया अधिकारी, गुना	राघौगढ़	रिजर्व
23	श्री ए. के. एस. चौहान, जिला पौढ़ शिक्षा अधिकारी, गुना	राघौगढ़	रिजर्व

जनपद-चाचौड़ा

1	श्री एन. के. बरेलिया, कार्यपालन यंत्री, ग्रा. या. सेवा, गुना	चाचौड़ा	1 बांसाहेडा कंला
2	श्री ओ. पी. मंगल, सहा. यंत्री, जल संसाधन, गुना	चाचौड़ा	2 खजूरिया
3	श्री आर. के. मिश्रा, उप संचालक सामाजिक न्याय, गुना	चाचौड़ा	3 सानई
4	श्री के. एल. चौधरी, सहायक यंत्री, लो.नि.वि., गुना	चाचौड़ा	4 मृगवास
5	श्री रणवीर सिंह रघुवंशी, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा.यां.सेवा, गुना	चाचौड़ा	5 बरखेडा कंला
6	डॉ. एल. आर. शर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी, गुना	चाचौड़ा	6 झरेड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)
7	डॉ. व्ही. एस. धापानी, जिला योजना अधिकारी, गुना	चाचौड़ा	7 बडौद
8	श्री व्ही. एन. एस. तोमर, सहा. संचालक, कृषि विभाग, गुना	चाचौड़ा	8 भमावद
9	श्री एस. एस. राघव, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, गुना	चाचौड़ा	9 उपरी
10	श्री आर. बी. गोयल, परियोजना अधिकारी, म.बा.वि., गुना	चाचौड़ा	10 कानाखेडी
11	श्री उपेन्द्र सिंह, उपायुक्त सहकारिता, जिला गुना	चाचौड़ा	11 रमडी
12	श्री ए. के. गर्ग, सहा. यंत्री, लो.स्वा.यां.वि. (मेकेनिकल) उपखण्ड, गुना	चाचौड़ा	12 बरखेडी माफी
13	श्री डी. सी. शर्मा, उप संचालक कृषि, गुना	चाचौड़ा	13 बटावदा
14	श्री एस. के. राजौरिया, सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग, गुना	चाचौड़ा	14 कुसुमपुरा
15	श्री एस. के. खरे, कार्यपालन यंत्री, म. प्र. मध्यक्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी, गुना.	चाचौड़ा	15 भीपत्या भोती
16	श्री बी. एल. दादोरिया, कार्य. यंत्री, जल संसाधन, गुना	चाचौड़ा	16 बिजनीपुरा
17	श्री भरोसीराम गोड, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, राधोगढ	चाचौड़ा	17 बापचा लहरिया
18	श्री एस. बी. जाटव, सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी, आरोन	चाचौड़ा	18 कीताखेडी
19	श्री पी. एल. यादव, सहायक यंत्री, लो.नि.वि., गुना	चाचौड़ा	19 पेंची
20	श्री राजय श्रीवास्तव, प्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, गुना	चाचौड़ा	20 सुरेला
21	श्री भगवान सिंह गुर्जर, सहा. संचालक, उद्यान, गुना	चाचौड़ा	21 कोटरा
22	श्री एस. के. एस. कुशवाह, सहायक भूमि संरक्षक अधिकारी, गुना	चाचौड़ा	22 लखन वास
23	श्री एच. के. पठान, सहायक परियोजना अधिकारी, डी.पी.सी., गुना	चाचौड़ा	23 देहरी
24	श्री आर. के. श्रीवास्तव, वरि. व्याख्याता ज़ाईट, बजरंगगढ़		रिजर्व
25	डॉ. एम. के. गुसा, प्रभारी, उप संचालक, पशु चिकि. सेवा, गुना		रिजर्व

सेक्टर मजिस्ट्रेट की सूची

सरल क्र.	जनपद पंचायत का नाम	सेक्टर का नाम	सेक्टर अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गुना	सिरसी	श्री व्ही. एस. भंडारी, उप वनमण्डल अधिकारी, गुना
2.	गुना	म्याना	श्री अनूप श्रीवास्तव, वनक्षेत्रपाल वनमण्डल अधिकारी कार्यालय, गुना
3.	गुना	भगराना	श्री एल. बी. गोयल, उप वनमण्डल अधिकारी, गुना
4.	गुना	पगारा	श्री बी. पी. पंत, अधीक्षक, भू-अभिलेख, गुना
5.	गुना	सिरसीकलां	श्री अरविंद जैन, राजस्व निरीक्षक, गुना

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	बमोरी	मुहाल कालोनी	श्री बी. पी. पंत, अधीक्षक, भू-अभिलेख, गुना
7.	बमोरी	बरवन	श्री ए. के. जोशी, सहा. वन संरक्षक वनमण्डल अधिकारी कार्यालय, गुना
8.	बमोरी	फतेहगढ़	श्री भानूप्रकाश मिश्रा, सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, गुना
9.	बमोरी	हमीरपुर	श्री एल. बी. गोयल, उप वनमण्डल अधिकारी, गुना
10.	बमोरी	पाडोन	श्री कैलाश साहू, राजस्व निरीक्षक, बमोरी
11.	आरोन	4 शहरोक	श्री भानूप्रकाश मिश्रा, सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, गुना
12.	आरोन	5 भादौर	श्री पूरण सिंह नरवरिया, सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, राघौगढ़
13.	चाचौड़ा	3 मृगवास	श्री आर. सी. कस्तवार, ना. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी आरोन
14.	चाचौड़ा	4 ऊपरी	श्री भानूप्रकाश मिश्रा, सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, गुना
15.	चाचौड़ा	8 वापचा लहरिया	श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, राजस्व निरीक्षक, चाचौड़ा
16.	राघौगढ़	3 बन्दरगढ़	श्री अरविंद जैन, राजस्व निरीक्षक, गुना
17.	राघौगढ़	6 जामनेर	श्री पूरण सिंह नरवरिया, सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, राघौगढ़
18.	राघौगढ़	10 दुर्गपुरा	श्री अनूप श्रीवास्तव, वनक्षेत्रपाल वनमण्डल अधिकारी, कार्यालय, गुना